



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 25 अगस्त, 2014 / 3 भाद्रपद, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th August, 2014

No. HHC/GAZ/14-333/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 21 days' earned leave w.e.f. 25.9.2014 to 15.10.2014 in favour of Shri Nav Kamal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (VII), Shimla, H.P.

Certified that Shri Nav Kamal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Nav Kamal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (VII), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th August, 2014

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (VI), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(VII), Shimla and also the Controlling Officer in respect of Class II to IV establishment attached in the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(VII), Shimla for the purpose of TA etc. under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Nav Kamal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (VII), Shimla w.e.f. 25.9.2014 to 15.10.2014 or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

MUNICIPAL COUNCIL NAHAN---PLASTICWASTE (MANAGEMENT AND HANDLING) BYE-LAWS, 2014"

NOTIFICATION

Nahan, the 28th June, 2014

No.SI/MCN./Bye-Laws/2014-1698.—In compliance to the Hon'ble High Court order dated 26-12-2013 passed in CWP No. 1732/2010 along with other CWPs, the following Plastic Waste bye-laws, 2014 made by the Municipal Council Nahan in exercise of the power conferred by Section 217 and Section 219 read with Clause d) (v) of sub section (1) of section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time was published for the information of general public and notice was given that the said draft bye-laws shall be considered by Municipal Council Nahan after expiry of a period of 15 days from the date of its publication of the said notification vide notification of even No Dated 28-05-2014 Sr. No. 02.

From the person, likely to be affected by these draft bye-laws has any, objection(s) against these draft rules; he may send the written objection to the Executive Officer Municipal Council Nahan, within the aforesaid period.

And where as the objections and suggestions received has been discussed in the house of Municipal Council Nahan vide its resolution No. dated 28-05-2014 Sr. No. 02 and disposed off accordingly.

Now therefore, in exercise of the powers conferred ibid sections of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994(Act No13 of 1994)is hereby enacted the-“Municipal Council Nahan -- Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014” as under:—

Preliminary

1. Short title, commencement and application.—(i) These Bye-Laws may be called, “Municipal Council Nahan--Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014.”

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Council Nahan --as defined from time to time.

2. Definitions.—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—

(a) “**Act**” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) “**Authorized Officer**” means any officer/official duly authorized by the Municipality under these Bye-laws;

(c) “**Carry bags**” means all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;

(d) “**Compostable plastic**” means plastic that undergoes degradation by biological process during composting to yield CO₂, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compost able materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(e) “**Disintegration**” means the physical breakdown of a material into very small fragments;

(f) “**Extended Producer’s Responsibility (EPR)**” means the responsibility of a producer or a manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastics, pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;

(g) “**Manufacturer**” means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packing, pouches and the like or uses such materials in packing of a product;

(h) “**Municipality**” means an institution of Self Government constituted as a Nagar Panchayat or Municipal Council or Municipal Corporation under this Act or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

- (i) “**Multilayered Plastic**” means any material having a combination of more than one layer or packing material such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;
- (j) “**Occupier**” includes any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable and also include a tenant;
- (k) “**Plastic**” means material which contain as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;
- (l) “**Plastic waste**” means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packing have been discarded after use or after their intended life is over;
- (m) “**Registration**” means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastic with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within the jurisdiction of the Municipality;
- (n) “**Rule**” means the rules made under the H.P. Municipal Act, 1994, (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (o) “**Section**” means section of the Act;
- (p) “**Virgin plastic**” means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
- (q) “**Waste management**” means the scientific reduction; re-use, recovery, recycling composting or disposal of plastic waste;
- (r) “**Waste pickers**” means individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste;

(2) All other words and expression used in these Bye-laws, but not defined, shall have the same meaning as are assigned them in the Act or Rules framed there under.

3. Prescribed Authority.—For enforcement of the provision of these Bye-laws relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipality and its authorized officer/official, as the case may be.

4. Generation of Plastic Waste.—(1) The Municipality may assess quantum of post consumer plastic waste generated through delineating high, mid and low waste generating areas within jurisdiction and conducting waste audit in the manner as provided under Bye-Laws 9.

(2) The Municipality may ask manufactures, distributor and other person who produce or handling commodities for plastic quantum within its jurisdiction and also with respect to type, size, labeling and composition of packaging.

5. Segregation of Plastic waste.—(1) Municipality shall ensure post consumer plastic waste through primary or secondary segregation from the waste stream.

(2) No owner or occupier of any premises shall keep or allow to be kept staking or deposits of post consumer plastic waste which is likely to occasion a nuisance or is likely to be dangerous to health and environment.

6. Plastic Waste Management Centers (PWMC).—(1) Municipality shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the plastic waste management system ensuring collection, storage, transportation, treatment, disposal and for performing the associated functions, namely:- The Municipality shall establish a plastic waste management center (PWMC) headed by its Sanitary Inspector. The plastic waste management center within the municipality will ensure that post consumer plastic waste is recovered from the waste stream.

(2) The PWMC shall ensure the identification and involvement of the waste pickers, agencies working in waste management sector and formalization of the informal post consumer plastic waste collection units within jurisdiction of the Municipality.

(3) The PWMC shall register and grant authorization to such informal post consumer plastic waste collection units within the Municipality in the format as prescribed by the municipality from time to time.

(4) The registration granted under these bye laws shall be valid for a period of one year, unless revoked suspended or cancelled; and registration shall not be revoked suspended or cancelled without providing the registered plastic waste unit an opportunity for explanation to the authority.

(5) The PWMC may also establish plastic waste collection units in Municipality jurisdiction involving plastic bulk generators.

(6) The PWMC may ensure such unit's canalization to authorized recyclers.

(7) The PWMC shall create awareness among all stakeholders about their responsibilities and ill effects of plastic waste;

7. Plastic Waste Recycling and Recovery.—The plastic waste management shall be as under:—

(1) Recycling, recovery or disposal of post consumer plastic waste shall be carried out as per the rules, regulation and standards stipulated by the Central Government from time to time;

(2) Recycling of plastics shall be carried out in according with Indian standards: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic, as amended from time to time;

(3) Recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic and in compliance with the rules under the Environment (Protection) act, 1986, as amended from time to time;

(4) The Municipality shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed off in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specification for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

8. Prohibition on Littering and Burning of Plastic Waste.—(1) No owner or occupier shall dispose-off any post consumer plastic waste to run down or to be thrown into any drain sink or any other place within municipal area except in such a manner as shall prevent any avoidable nuisance.

(2) No owner or occupier of any premises shall deposit post consumer plastic waste in any street, on the verandah of any building, any unoccupied ground along side, on the bank of a water source, any dustbin, vehicle and vessel not intended for the removal of the same.

(3) No owner or occupier of any premises shall burn the post consumer plastic waste.

(4) If any corporate body, firm or other association of individuals committing waste under this section; every person who, at the time of the commission of the offence, was in charge of the conduct of the corporate body shall be deemed to be guilty.

9. Waste Audit.—(i) The Municipality shall manage the plastic waste by undertaking waste audit in the beginning of the year.

(ii) The results of the waste audit shall be compiled and sent to the Himachal Pradesh State Pollution Control Board/ State Government.

10. Extended Producer's Responsibility.—The Municipality may ask the manufactures, either collection or individually in line with the principal of Extended Producer's Responsibility (EPR) involving such manufactures, registered within its jurisdiction and board owners with registered offices within its jurisdiction to provide the requires finance to establish such collection centers.

11. Sustainable Use of Plastic Waste.—The Municipal shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as road construction, co-incineration etc. The Municipality or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.

12. Penalty.—Whosoever contravenes the provision of these Bye-laws shall be penalize provided under Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the prescribed authority may request the competent authority to withdraw registration/ recognition, if any, granted in his favour.

Dated: 26.06.2014

Place: Nahan.

By order,
Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council Nahan.

ब अदालत श्री वाई0पी0एस0 वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

1. श्री राहुल कुमार पुत्र श्री भोपिन्दर सिंह तोमर, निवासी ग्राम महमूदा, पोस्ट सैदाबाद, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी चिड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. श्रुति चौहान पुत्री श्री दया राम, निवासी मकान नं0 100, राजघाट, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
.वादीगण।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री राहुल व श्रुति ने जेर धारा 15, स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र बाबत विवाह इस न्यायालय में दिनांक 24-6-2014 को पेश किया है कि वे दोनों उक्त ऐक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को उपरोक्त फ्रीकैन के आपसी विवाह करने बारे कोई एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 16-9-2014 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश कर सकता है अन्यथा वादीगण का विवाह पंजीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

वाई0पी0एस0 वर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सन्त राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रिड़कू, निवासी वार्ड नं0 2, नगर परिषद् रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थी के परिवार को नगर परिषद् रोहडू के परिवार रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे।

इस कार्यालय में श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रिड़कू, निवासी वार्ड नं0 2, नगर परिषद् रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है उनको व उनके परिवार को नगर परिषद् रोहडू के परिवार रजिस्टर में आज तक दर्ज नहीं किया गया है तथा उनके नाम को दर्ज करने के आदेश नगर परिषद् रोहडू को दिये जायें। प्रार्थी के परिवार में निम्न सदस्य हैं जो कि उसके साथ रोहडू में ही निवास करते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	नाम	परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	जन्म तिथि
1.	श्री ओम प्रकाश	स्वयं	8-3-1952
2.	श्रीमती उमा शर्मा	पत्नी	30-1-1969
3.	अमित शर्मा	सुपुत्र	28-2-1978
4.	श्वेता शर्मा	सुपुत्री	25-8-1980
5.	सुमित शर्मा	सुपुत्र	9-3-1982
6.	सुमन शर्मा	बहु	9-3-1991

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम नगर परिषद् में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 30-8-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी व उसके परिवार के नाम व जन्म तिथियां नगर परिषद् में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नगर परिषद् रोहडू में उनके नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 6-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सन्त राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री शिव लाल वर्मा, शिव कुटीर, देव नगर, कसुम्पटी, तहसील शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज अराजी खाता नं0 9, 10, 11, 12, 13 व 14, वाका चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री शिव लाल वर्मा, शिव कुटीर, देव नगर, कसुम्पटी, तहसील शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी अराजी खाता नं0 9, 10, 11, 12, 13 व 14 वाका चक गोपालपुर के कागजात माल में बतौर हिस्सेदार मालिक व काश्त दर्ज कागजात माल है। राजस्व अभिलेख में गलती से वादी के पिता का नाम मिऊ राम के स्थान पर नाना मंगलू का नाम दर्ज किया गया है तथा दादा थिसू के स्थान पर मंगलू के पिता मैया राम का नाम दर्ज था जिसकी दरुस्ती दिनांक 20-3-2010 को बजरिया ईन्तकाल नं0 445 में की गई परन्तु जब वादी ने जमाबन्दी का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी के पिता का नाम मैया राम उर्फ मंगलू दर्ज किया गया जबकि मंगलू प्रार्थी के रिश्ते में नाना थे। इसके पश्चात् प्रार्थी के दादा का नाम मैया राम उर्फ थिसू दर्ज किया है जबकि थिसू, मंगलू के पिता का नाम है। वादी अराजी उपरोक्त के माल कागजात में शिव लाल पुत्र मिऊ उर्फ मंगलू पुत्र मैया राम उर्फ थिसू के स्थान पर शिव लाल पुत्र मिऊ राम पुत्र मैया राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के पिता व दादा का नाम उपरोक्त माल कागजात में शिव लाल पुत्र मिऊ उर्फ मंगलू पुत्र मैया राम उर्फ थिसू के स्थान पर शिव लाल पुत्र मिऊ राम पुत्र मैया राम दरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-9-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री दिनेश भलूनी पुत्र स्व0 डॉ0 धर्म सैन, निवासी वार्ड नं0 4, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री दिनेश भलूनी पुत्र स्व0 डॉ0 धर्म सैन, निवासी वार्ड नं0 4, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की माता श्रीमती कमला देवी का देहान्त 8 जुलाई, 2006 को हुआ था परन्तु किसी कारणवश माता की मृत्यु तिथि का पंजीकरण नगरपालिका परिषद् रामपुर में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी अब अपनी माता की मृत्यु तिथि का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद् में करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्रीमती कमला देवी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद् अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-9-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 6-IX/10

तारीख रजुआ : 1-6-2010

ब मुकद्दमा :

श्री श्याम लाल पुत्र श्री करम दास, निवासी डिस्वानी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)
फ्रीकअवल।

श्री भीषम सिंह पुत्र अर्की लाल, निवासी डिस्वानी, तहसील चड़गांव आदि।

दरखास्त बराए फरमाए जाने गैर—निस्बत कराने हुकमनी तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं0 29/69 खसरा नं0 442, 468, 469, 412, रकबा तादादी 0-42-76 है0, खसरा नं0 395/1 रकबा तादादी 0-03-19 है0 चक कमरौण, तहसील चड़गांव व खाता खतौनी नं0 34/85, खसरा नं0 2542, 2543, 2556, 2581, 2582, 2595, 2596, 2597 व 2598, रकबा तादादी 1-20-60 है0 वाका चक डिस्वानी, तहसील चड़गांव बराए नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसावी तथा नक्शा "अ" फ्रीकअवल श्री श्याम लाल पुत्र श्री करम दास, निवासी

डिस्वानी, तहसील चड़गांव ने दरखास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है तथा अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव विवाद रहता है। इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम, तकसीम करके प्रार्थीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फ्रीकेन को बजरिया समन तलब किए गए परन्तु फ्रीकदोयम श्रीमती पुजा पुत्री व राहुल पुत्र श्री नेहर सिंह व श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री नेहर सिंह, निवासी डिस्वानी, तहसील चड़गांव घर पर न मिलने के कारण उचित तामील न होनी पाई जा रही है। जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 8-9-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 7-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सत्या प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश कटियाल, गांव सतका, डाकखाना चौपाल, तहसील चौपाल
... वादी।

बनाम

1. आम जनता
2. प्रधान, ग्राम पंचायत ढाणा, तहसील चौपाल, जिला शिमला ... प्रतिवादी।

विषय.—श्री सत्या प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश (प्रार्थी के पुत्र व पुत्री का नाम ग्राम पंचायत ढाणा में दर्ज करने बारे) की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में वादी श्री सत्या प्रकाश ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री का नाम पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है जिसे कि अब वह ग्राम पंचायत ढाणा के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो निम्न प्रकार से हैं :

नाम	सम्बन्ध	जन्म की तिथि
1. दक्ष	पुत्र	3-2-2006
2. तान्या	पुत्री	5-6-2007

अतः ग्राम पंचायत ढाणा की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-9-2014 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत ढाणा को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा।

आज दिनांक 11-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार,
उप-मण्डलाधिकारी (ना०),
चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०)।

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla(R), District Shimla (H. P.)

Shri Gopal Chand s/o Late Shri Hira Nand Sharma, r/o Village Bharywan, P.O. Koh Bag, Tehsil and District Shimla (H. P.).

Versus

General public

.. Respondent.

Whereas, Shri Gopal Chand s/o Late Shri Hira Nand Sharma, r/o Village Bharywan, P.O. Koh Bag, Tehsil and District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his father named Late Shri Hira Nand Sharma, r/o Village Bharywan, P.O. Koh Bag, Tehsil and District Shimla (H. P.) in the record of Birth and Death of GP Ghech issued the non-availability No. Nil, dated 11-8-2014 and also recommended from CMO Shimla vide No. HFW-SML-B&D/ST/12/2432-88, dated 16-8-2014 as following :—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Death
1.	Late Shri Hira Nand	s/o Late Shri Tulsi Ram	11-6-2009

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of death of above in the record of GP Ghech Shimla may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 21-8-2014 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Tsering Choezom w/o Sh. Sonam Dhargyal, r/o Dhara No. 3, Tibetan Colony, Nabha House, Nabha, Shimla, Himachal Pradesh

.. Applicant.

Versus

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Tsering Choezom w/o Sh. Sonam Dhargyal, r/o Dhara No. 3, Tibetan Colony, Nabha House, Nabha, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of her daughter, namely Kalsang Choden whose date of birth is 24-11-1989 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and the case will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of the Court on this 4th day of August, 2014.

Seal.

G. C. NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.*